

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, कर्मचारियों ने ली सत्यनिष्ठा की शपथ

भ्रष्टाचार देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है; इसको ध्यान में रखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के कर्मचारियों ने आज भ्रष्टाचार मुक्त संस्थान और देश के निर्माण का संकल्प लिया। प्रो. नाज़िम हुसैन जाफ़री, रजिस्ट्रार, और प्रो. एजाज मसीह, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक ब्लॉक के लॉन में शपथ दिलाई।

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देने और 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की नीति को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 तक विश्वविद्यालय में मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के क्रम में शपथ दिलाई गई। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलपड नेशन- भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत" है।

अन्य बातों के अलावा, कर्मचारियों ने नैतिक व्यवसाय प्रथाओं, ईमानदारी और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने; रिश्वत न लेने-देने; पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर आधारित अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता; व्यवसाय के संचालन में प्रासंगिक कानूनों, नियमों और अनुपालन तंत्र का पालन; सभी कर्मचारियों सामान्य संहिता अपनाना; अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन के लिए संबंधित कानूनों, विनियमों आदि के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने; शिकायतों और कपटपूर्ण गतिविधियों की रिपोर्ट करने और हितधारकों और समाज के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए शिकायत निवारण और व्हिसल ब्लोअर तंत्र प्रदान करने की शपथ ली।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के अपने प्रयासों के क्रम में, हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया